



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 14—नवम्बर 20, 2009 (कार्तिक 23, 1931)  
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 14—NOVEMBER 20, 2009 (KARTIKA 23, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची	
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .....	997
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	1061
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	75
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	1715
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .....	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	3769
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .....	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	*
भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....	8933
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस ....	383
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण .....	*

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	997	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	1061	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	75	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1691	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	3769
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	8933
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	383
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

\*Folios not received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

भारत सरकार के प्रतिनिधि

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 अक्टूबर 2009

सं. पीएफजी (722)/2009-प्रशा.-II--केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 क की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रादेशिक निदेशक कार्यालय (पूर्वी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नोएडा में सहायक निदेशक श्रीमती वराह संतोषी जागीरदार को एतद्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया जाता है।

जे. एस. गुप्ता  
अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2009

सं. क्यू-16012/1/2009-ई.एस.ए. (डब्ल्यू.ई.)--जबकि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) के अंतर्गत 1958 में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गयी थी।

और जबकि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 3 में पुनर्गठन का प्रावधान है।

अतः, अब उपर्युक्त नियम 3 के अनुसरण में और इस विषय पर पूर्ववर्ती अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन करती है और जनता की सूचना के लिए अधिसूचित करती है कि पुनर्गठित सोसाइटी में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

1. श्री अशोक सिंह  
अध्यक्ष,  
केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड,  
435, विश्वास खण्ड-III,  
गोमती नगर, लखनऊ

भारत सरकार द्वारा नामित

2. संयुक्त सचिव  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
(केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य देखने वाले),  
नई दिल्ली

सदस्य

3. वित्तीय सलाहकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
नई दिल्ली

सदस्य

4. महानिदेशक  
राष्ट्रीय साक्षरता अभियान,  
शिक्षा विभाग,  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

सदस्य

शैक्षणिक संस्थान के प्रतिनिधि

5. श्री चलवाडी नारायण स्वामी  
604, वाव्युनन्दन लेआउट,  
हिब्ल, केम्पापुरा,  
बंगलौर-560024

सदस्य

बोर्ड के अन्य सदस्यों के नाम बाद में अधिसूचित किए जाएंगे।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे।

प्रदीप गौड़  
अवर सचिव

दिनांक 4 नवम्बर 2009

सं. क्यू-16012/2/2009-ई.एस.ए. (एनएलआई)--जबकि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957) के अंतर्गत वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर-24, नोएडा को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

और जबकि उक्त सोसाइटी के नियमों और विनियमों के नियम III में इसके गठन का प्रावधान है।

अतः, अब, पूर्वोक्त नियम III के अनुसरण में और इस विषय पर पहले जारी की गयी अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए उक्त सोसाइटी में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :--

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री  | अध्यक्ष   |
| 2. श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  | उपाध्यक्ष |
| केन्द्रीय सरकार के छः प्रतिनिधि   |           |
| 3. सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय  | उपाध्यक्ष |
| 4. अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय  | सदस्य     |
| 5. संयुक्त सचिव अथवा श्रम और रोजगार मंत्रालय में वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का कार्यभार देख रहे अधिकारी के समकक्ष अधिकारी | सदस्य     |
| 6. वित्तीय सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय   | सदस्य     |
| 7. सचिव, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय   | सदस्य     |
| 8. सलाहकार (एलईएम), योजना आयोग, योजना भवन   | सदस्य     |

श्रम अथवा संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले चार विख्यात व्यक्ति

- |  |               |
|--|---------------|
| 9. श्री एम.ए. अज़ीम<br>अज़ीम प्लेस, गुलबर्गा एजुकेशन ट्रस्ट,<br>नेहरू गंज एरिया,<br>गुलबर्गा (कर्नाटक)   | सदस्य         |
| 10. श्री एम. वी. शशिकुमारन नायर<br>राज श्री, मानक्करा,<br>सस्थामकोट्टा पीओ,<br>कोल्लम जिला, केरल   | सदस्य         |
| 11. डॉ. मुरारी लाल<br>निवास : 359, पॉकेट-V, फेज-I,<br>मयूर विहार, नई दिल्ली<br>(मो. नं. 9818611150)  | सदस्य         |
| 12. श्री जितेन्द्र सिंह<br>पुत्र स्व. श्री भेलेन्द्र सिंह,<br>निवास : ए-64, आवास विकास कॉलोनी,<br>सूरज कुंड, गोरखपुर (यू.पी.)<br>(टेली. नं. 23092217)          | सदस्य         |
| एक महत्वपूर्ण संस्थान  |               |
| 13. महानिदेशक<br>महात्मा गांधी लेबर इंस्टीट्यूट,<br>ड्राइव इन रोड, मेम नगर,<br>अहमदाबाद-380052 (गुजरात)  | सदस्य         |
| वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा के प्रतिनिधि   |               |
| 14. निदेशक,<br>वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,<br>सैक्टर-24, नोएडा  | सदस्य<br>सचिव |
| 'कामगार संगठनों' और 'नियोक्ता संगठनों', प्रत्येक से दो प्रतिनिधि और दो संसद सदस्यों, लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक से एक सदस्य को बाद में अधिसूचित किया जाएगा। |               |

प्रदीप गौड़  
अवर सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 13th October 2009

No. PFG (722)/2009-Admn. II—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby authorize Mrs. Varaha Santoshi Jagirdar, Assistant Director in the Office of Regional Director (Northern Region), Ministry of Corporate Affairs, Noida for the purpose of the said section.

J. S. GUPTA  
Under Secy.

## REPRESENTATIVE OF EDUCATIONAL INSTITUTION

5. Shri Chalawadi Narayana Swamy Member  
604, Vavyunandana Layout,  
Hebbal, Kempapura,  
Bangalore-560024.

The names of other members of the Board will be notified later.

Director, Central Board for Workers Education will be the Member Secretary to the Board.

PRADEEP GUAR  
Under Secy.

## MINISTRY OF LABOUR &amp; EMPLOYMENT

New Delhi, the 29th October 2009

No. Q-16012/1/2009-ESA(WE)—Whereas the Central Board for Workers Education was established in 1958 under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860).

And whereas Rule 3 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education provide for the reconstitution.

Now, therefore, in pursuance of Rule 3 aforesaid and in supersession of the earlier Notification on the subject, Government of India hereby reconstitute the Central Board for Workers Education and notify to information of the public that the reconstituted Society shall consist of the following persons namely :—

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Shri Ashok Singh                  | Nominated by the |
| Chairman,                            | Government of    |
| Central Board for Workers Education, | India            |
| 435, Vishwas Khand-III,              |                  |
| Gomti Nagar, Lucknow.                |                  |

## REPRESENTATIVE OF GOVERNMENT OF INDIA

- |  |        |
|--|--------|
| 2. Joint Secretary,<br>Ministry of Labour and Employment,<br>(looking after the work<br>of Central Board for Workers Education),<br>New Delhi.                   | Member |
| 3. Financial Adviser,<br>Ministry of Labour and Employment,<br>New Delhi.  | Member |
| 4. Director General,<br>National Literacy Mission,<br>Department of Education,<br>Ministry of Human Resource Development<br>Shastri Bhawan,<br>New Delhi-110001. | Member |

The 4th November 2009

No. Q-16012/2/2009-ESA(NLI).—Whereas the V. V. Giri National labour Institute, Sector-24, Noida has been registered as a Society under Societies Registration Act 1860 (Punjab Amendment Act, 1957).

And whereas Rule III of the Rules & Regulations of the said Society provides for its constitution.

Now, therefore in pursuance of Rule III aforesaid and in supersession of the earlier Notification of the said Society shall consist of the following persons, namely :—

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Union Minister for Labour and<br>Employment.    | — President      |
| 2. Minister of State for Labour and<br>Employment. | — Vice-President |

## SIX CENTRAL GOVERNMENT REPRESENTATIVES—

- |   |                  |
|---|------------------|
| 3. Secretary, Ministry of Labour &<br>Employment.   | — Vice-President |
| 4. Additional Secretary, Ministry of<br>Labour & Employment.  | — Member         |
| 5. Joint Secretary or an officer of<br>equivalent status looking after<br>the work of V.V. Giri National<br>Labour Institute in the Ministry<br>of Labour and Employment. | — Member         |
| 6. Financial Adviser, Ministry of<br>Labour & Employment.   | — Member         |
| 7. Secretary, Department of<br>Secondary & Higher Education,<br>Ministry of Human Resources<br>Development.   | — Member         |

8. Adviser (LEM), Planning — Member  
Commission Yojana Bhawan.

Suraj Kund,  
Gorakhpur (U.P.).  
Tele.- No. 23092217

FOUR EMINENT PERSONS WHO HAVE MADE  
NOTEWORTHY CONTRIBUTION IN THE FIELD OF  
LABOUR OR RELATED FIELD.

ONE IMPORTANT INSTITUTION

9. Shri M. A. Azeem. — Member  
Azeem Place,  
Gulbarga Education Trust,  
Nehru Gunj Area,  
Gulbarga-585104  
(Karnataka)

13. Director General — Member  
Mahatma Gandhi Labour Institute  
Drive-in-Road, Mem Nagar,  
Ahmedabad-380052  
(Gujrat)

REPRESENTATIVE FROM V. V. GIRI NATIONAL LABOUR  
INSTITUTE, NOIDA

10. Shri M. V. Sasikumaran Nair, — Member  
Raj Sree, Manakkara,  
Sasthamcotta PO,  
Kollam District, Kerala.

14. Director, — Member  
V. V. Giri National Labour Institute, Secretary  
Sector-24, Noida.

11. Dr. Murari Lal, — Member  
R/o 359, Pocket-V, Phase-I,  
Mayur Vihar,  
New Delhi.  
(Mobile No. 9818611150)

The names of two representatives each of 'Workers Organizations' and 'Employers Organization', and two members of Parliament one each from Lok Sabha and Rajya Sabha will be notified later.

12. Shri Jitendra Singh, — Member  
S/o Late Shri Bholendra Singh  
R/o A-64, Awas Vikas Colony,

PRADEEP GAUR  
Under Secy.